



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 913]

नई दिल्ली, बुधवार, दिसम्बर 19, 2001/अग्राहायण 28, 1923

No. 913]

NEW DELHI, WEDNESDAY, DECEMBER 19, 2001/AGRAHAYANA 28, 1923

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड

SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA

अधिसूचना

NOTIFICATION

मुम्बई, 19 दिसम्बर, 2001

Mumbai, the 19th December, 2001

**का.आ. 1232(अ).**— भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड ने, प्रतिभूति संहिता (विनियमन) अधिनियम, 1956 की धारा 8 (1) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए, तारीख 12 सितम्बर 2001 के इसके आदेश द्वारा एक्सचेंज को इसके संगम-अनुच्छेद के अनुच्छेद 29 का संशोधन करने ताकि अधिकतम जुमाने जो गलती करने वाले सदस्य पर अधिरोपित किया जा सकता हो को हटाया जा सके तथा आदेश की तारीख से 60 दिनों की कालावधि के भीतर अतिक्रमण के स्वरूप तथा गम्भीरता पर निर्भर करते हुए जुमाने का उपबंध करने का निदेश दिया था।

तथापि, एक्सचेंज ने भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड द्वारा जारी पूर्वोक्त निदेशों में यथा नियत 60 दिनों की समाप्ति के पश्चात् भी उक्त अनुच्छेद 29 का संशोधन नहीं किया है।

इसलिए, भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड प्रतिभूति संहिता (विनियमन) अधिनियम, 1956 (1956 का 42) की धारा 8 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा निदेश देता है कि शब्द "सहायक" के पश्चात् तथा "किन्हीं भी स्थितियों में" के पूर्व दिए हुए शब्दों "रुपए \*25,000 से अनधिक" को कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज एसोसिएशन लि. के संगम-अनुच्छेद के अनुच्छेद 29 से हटा दिया जाएगा।

[फा. सं. भाप्रविबो/विधि/41871/2001]

देवेन्द्र राज मेहता, अध्यक्ष

**S.O. 1232(E).**—Securities and Exchange Board of India, in exercise of powers under Section 8(1) of Securities Contracts (Regulation) Act, 1956, vide its order dated September 12, 2001 had directed the exchange to amend Article 29 of its Articles of Association so as to remove the maximum fine that can be imposed on an erring member and to provide for a fine depending on the nature and the gravity of the violation within a period of 60 days from the date of the order.

However, the exchange has not amended the said Article 29 even after the expiry of 60 days as stipulated in the aforesaid directions issued by Securities and Exchange Board of India.

Therefore, Securities and Exchange Board of India in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 8 of the Securities Contracts (Regulation) Act, 1956 (42 of 1956), do hereby direct that the words "not exceeding Rs. \*25,000" appearing after the word "assistant" and before "in any of the events following" shall be deleted from the Article 29 of the Articles of Association of Calcutta Stock Exchange Association Ltd.

[F. No. SEBI/LE/41871/2001]

DEVENDRA RAJ MEHTA, Chairman

